

“क”
“A”

निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा

Register for Maintenance of Day to Day Accounts of

अभ्यर्थी का नाम :

विनोद कुमार सिंह

Name of the Candidate :

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :

रा. लो. सपा

Name of Political Party, If any :

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया :

133 वा. रि. स. ग. 2

Constituency from which contested :

परिणाम की घोषणा की तिथि :

10.11.20

Date of Declaration of Result :

निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता :

विनोद कुमार सिंह

Name and address of Election Agent :

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :

Total expenditure incurred/authorized :

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम घोषणा की तारीख तक दोनों तारीखें निहित)

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

1	2			3	4	5
व्यय/घटना की तारीख Date of expenditure/event	व्यय का प्रकृति Nature of expenditure			कुल राशि रु० में (भुगतान किया गया + बचावा) Total Amount in Rupees (Paid + outstanding)	आदाता का नाम एवं पता Name and Address of Payee	बिल संख्या/वाचन संख्या और तारीख Bill No. Voucher No. and date
	विवरण Description	मात्रा Quantity	दर प्रति यूनिट Rate Per unit			
				12800		
21.10.20	चाय	60=रु	10=रु	600=रु	राम कृष्ण (सुभापुर)	4
22.10.20	चाय	50=रु	10=रु	500=रु	मोहन लाल (सुभापुर)	5
23.10.20	सिंबरा	20=रु	20=रु	400=रु	अरविन्द कुमार (सुभापुर)	6
	चाय	20=रु	10=रु	200=रु		
24.10.20	ग्रीट	70ml	70=रु	70=रु	दीपक कुमार (सुभापुर)	7
	दही	25=रु	20=रु	40=रु		
	प्याज	10=रु	25=रु	25=रु		
	सिंबरा	2	25=रु	50=रु		
	कमल	10	5=रु	50=रु		
25.10.20	सिंबरा	25=रु	20=रु	500=रु	जोबिन्दर कुमार (सुभापुर)	8
	मिठाई	25	20=रु	500=रु		
"	चाय	50	10=रु	500=रु	विनोद कुमार (सुभापुर)	9
26.10.20	सिंबरा	2	50=रु	100=रु	जोबिन्दर कुमार (सुभापुर)	10
				3535=रु		

प्रमाणित किया जाता है कि यह निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representati

अभ्यर्थियों द्वारा
Accounts of

निर्वाचन खर्च के दिन-प्रति-दिन लेखा संधारण हेतु पंजी
Election Expenditure by Contesting Candidates

2

परिशिष्ट-3 (1)
Annexure - 3 (i)
भाग-1
Part - I

5 बिल संख्या/वाउचर संख्या और तारीख Bill No. Voucher No. and date	6 अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उभगत/प्राधिकृत राशि Amount incurred/ authorized by candidate or his election agent	7 राजनैतिक पार्टी द्वारा उभगत/ प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम Amount incurred/ authorized by political party and name of political party	8 अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उभगत/ प्राधिकृत राशि, (पूरा नाम और पता सहित) Amount Incurred/ authorized by other individual/ association/ body/ any other (mention full name and address)	9 टिप्पणी, यदि कोई हो Remarks if any
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

1951
the Representat

के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result).

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

“क”

निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा

"A"

Register for Maintenance of Day to Day Accounts of

अभ्यर्थी का नाम : **विनोद कुमार सिंघ**
 Name of the Candidate
 राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो : **शिवसेना**
 Name of Political Party, If any
 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया : **132, कादिरा 0012**
 Constituency from which contested
 परिणाम की घोषणा की तिथि : **10.11.20**
 Date of Declaration of Result
 निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता : **विनोद कुमार सिंघ**
 Name and address of Election Agent

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :
 Total expenditure incurred/authorized
 (नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम घोषणा की तारीख तक दोनों तारीखें निहित)
 (From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

1	2			3	4	5
व्यय/घटना की तारीख Date of expenditure/event	व्यय का प्रकृति Nature of expenditure			कुल राशि जो है (भुगतान किया गया + बचता) Total Amount in Rupees (Paid + outstanding)	आदता का नाम एवं पता Name and Address of Payee	बिल संख्या/वाउचर संख्या और तारीख Bill No Voucher No and date
	विवरण Description	मात्रा Quantity	प्रति इकाई दर Rate Per unit			
26/10/20	4115	20	2020	16335 2535=10 10020	श्री विनोद कुमार	10
	← मिठुन	2	2020	40200	"	
	← मिठु	1kg	15020	150200	"	
	← मिठु	1kg	2020	20200	"	
				4115=00 16945=00		

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा सद्धा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत Section 77 के तहत तैयार किया गया है।
 Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation of the People Act, 1950

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के दिन-प्रति-दिन लेखा संधारण हेतु पंजी
Accounts of Election Expenditure by Contesting Candidates

परिशिष्ट-3 (1)
Annexure - 3 (ii)
 भाग-1
Part - I

3

5	6	7	8	9
बिल संख्या/दिनांक संख्या और तारीख Bill No. Voucher No. and date	निर्वाचन या उसके निर्वाचन द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि Amount incurred/ authorized by candidate or his election agent	राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम Amount incurred/ authorized by political party and name of political party	अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि, (पूरा नाम और पता सहित) Amount incurred/ authorized by other individual/ association/ body/ any other (mention full name and address)	टिप्पणी, यदि कोई हो Remarks if any
10			[Faint handwritten entries and a signature are visible in this section.]	[Faint handwritten entries are visible in this section.]

के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 of the Representative People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result)

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
 Signature of the Candidate

“क”

“A”

निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा

Register for Maintenance of Day to Day Accounts

अभ्यर्थी का नाम :

Name of the Candidate :

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :

Name of Political Party, if any :

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया :

Constituency from which contested :

परिणाम की घोषणा की तिथि :

Date of Declaration of Result :

निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता :

Name and address of Election Agent :

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :

Total expenditure incurred/authorized :

(नामनिर्देश की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम घोषणा की तारीख तक दोनों तारीखें विहित)

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

1	2		3	4	5
व्यय/घटना की तारीख Date of expenditure/event	व्यय का प्रकार Nature of expenditure		कुल राशि का - (भुगतान किया गया + बकाया) Total Amount in Rupees (Paid + outstanding)	आदाता का नाम एवं पता Name and Address of Payee	बिल संख्या/वाउचर संख्या और तारीख Bill No Voucher No and date
	विवरण Description	मात्रा Quantity	प्रति यूनिट दर Rate Per unit		
28.10.20	दारा प्रिण्ट BR-336 4997	1	900	900	
28.10.20	सुझाव प्रिण्ट BR-0162 2436	1	1200	1200	
29.10.20	सुझाव प्रिण्ट BR-0163 2319	1	1200	1200	
30.10.20	मकान BR-0164 5257	1	1200	1200	
29.10.20	जूस BR-0165 0001	1	1600	1600	
				23045=0	

प्रमाणित किया जाता है कि ये/ये निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957
Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation of the People Act, 1957

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के दिन-प्रति-दिन लेखा संधारण हेतु पंजी
 Accounts of Election Expenditure by Contesting Candidates

परिशिष्ट-3 (1)
 Annexure - 3 (i)
 भाग-1
 Part - I

5 बिल संख्या/आवक संख्या और तारीख Bill No. Voucher No. and date	6 उसके निर्वाचन द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि Amount incurred/ authorized by candidate or his election agent	7 राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम Amount incurred/ authorized by political party and name of political party	8 अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि, (पूरा नाम और पता सहित) Amount incurred/ authorized by other Individual/ association/ body/ any other (mention full name and address)	9 टिप्पणी, यदि कोई हो Remarks if any

निर्वाचन अधिनियम, 1951 के अर्थों में सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 7 of the Representation of the People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result).

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
 Signature of the Candidate

Register for Maintenance of Day to Day Accounts

“क”
“A”

अभ्यर्थी का नाम :
Name of the Candidate :
राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :
Name of Political Party, if any :
निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया :
Constituency from which contested :
परिणाम की घोषणा की तिथि :
Date of Declaration of Result :
निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता :
Name and address of Election Agent :
उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :
Total expenditure incurred/authorized :
(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम घोषणा की तारीख तक दोनों तारीखें निहित)
(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

1	2	3	4	5
व्यय/घटना की तारीख Date of expenditure/event	व्यय का प्रकृति Nature of expenditure	कुल राशि व्यय में (भुगतान किया गया + अवशेष) Total Amount in Rupees (Paid + outstanding)	आदात का नाम एवं पता Name and Address of Payee	वि संख्या/ संख्या तारीख B Vouch and
	विवरण Description	मात्रा Quantity	प्रति यूनिट दर Rate Per unit	
		23045		
29.10.20	गुड्स कारिगर BR-0166 9510	1	1300	1300/-
29.10.20	Motor cycle BR-33AJ 1567	1	600	600/-
27.10.20	पेय 358	358	83.81	3000/-
29.10.20	पेय 111	111	1	118/-
30.10.20	पेय 39.39	39.39	76.19	3000/-
11	पेय 2626	2626	76.17	2000/-
				30,263

प्रमाणित किया जाता है कि जे/मै निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत है।
Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation of the People Act, 1950.


अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के दिन-प्रति-दिन लेखा संवधारण हेतु पंजी
Accounts Election Expenditure by Contesting Candidates

परिशिष्ट-3 (1)
Annexure - 3 (i)
 भाग-1
Part - I

5

5	6	7	8	9
बिल संख्या/वाउचर संख्या और तारीख Bill No. Voucher No. and date	या उसके निर्वाचन द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि Amount incurred/ authorized by candidate his election agent	राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम Amount incurred/ authorized by political party and name of political party	अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि, (पूरा नाम और पता सहित) Amount incurred/ authorized by other individual/ association/ body/ any other (mention full name and address)	टिप्पणी, यदि कोई हो Remarks if any

के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result)


 अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

“क”
“A”

निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों

Register for Maintenance of Day to Day Accounts

अभ्यर्थी का नाम :
Name of the Candidate :
राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :
Name of Political Party, If any :
निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया :
Constituency from which contested :
परिणाम की घोषणा की तिथि :
Date of Declaration of Result :
निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता :
Name and address of Election Agent :
उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :
Total expenditure incurred/authorized :

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम घोषणा की तारीख तक दोनों तारीखें निहित)
(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

1	2			3	4	5
व्यय/घटना की तारीख Date of expenditure/event	व्यय का प्रकृति Nature of expenditure			कुल राशि जो में (भुगतान किया गया + बकाया) Total Amount in Rupees (Paid + outstanding)	आदाता का नाम एवं पता Name and Address of Payee	बिल संख्या/वा संख्या अ तारीख Bill Voucher and da
	विवरण Description	मात्रा Quantity	प्रति यूनिट दर Rate Per unit			
				30263.00		
30.10.20	दस्तावेज	26	7617	2000.00		
	पत्रिका	39	7617	3000.00		
	प्रतिका/पत्रिका	5	-	5800.00		
		L	-	900.00		
				41963.00		

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत है।
Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation of the People Act, 1951

अभ्यर्थियों के व्यय खाते
Candidates' Accounts


राज्य के दिन-प्रति-दिन लेखा संवहारण हेतु पंजी
Election Expenditure by Contesting Candidates


6

परिशिष्ट-3 (1)
Annexure - 3 (i)
भाग-1
Part - I

5 बिल संख्या/बा संख्या और तारीख Bill Voucher and date	6 उपरोक्त व्यय के निर्वाचन दल द्वारा उभरते/प्राधिकृत राशि Amount incurred/ authorized by candidate and election agent	7 राजनैतिक पार्टी द्वारा उभरते/ प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम Amount incurred/ authorized by political party and name of political party	8 अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उभरते/ प्राधिकृत राशि, (पूरा नाम और पता सहित) Amount incurred/ authorized by other individual/ association/ body/ any other (mention full name and address)	9 टिप्पणी, यदि कोई हो Remarks if any

प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Certificate to the full effect of the provisions of the Act, 1951) सही है (परिणाम की घोषणा के तत्पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7 of the Representation of the People Act, 1951 (Certificate to the full effect of the provisions of the Act, 1951) is correct (after the date of declaration of result).


A.E.O.


अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दि
Cash Register for Maintenance of Day

अभ्यर्थी का नाम :

Name of the Candidate :

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा :

Constituency from which contested :

परिमाण की घोषणा की तिथि :

Date of Declaration of Result :

निर्वाचन एजेंट का नाम और पता :

Name and address of Election Agent :

(नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिमाण की घोषणा की तिथि तक, दोनों तिथियाँ सहित)

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

प्राप्ति Receipt				शुगतान Payment	
तिथि Date	व्यक्ति/दल/संस्था/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई Name and address of person/ party association/body/any other from whom the amount received	रसीद संख्या Receipt No.	राशि Amount	बिल सं०/ वाउचर सं० तथा तिथि Bill No./ Voucher No. and date	दाता का नाम Name of Payee and Address
1	2	3	4	5	6
18-10-20	300,000 = 100				
19-10-20	100,000 = 100				
19-10-20					
19-10-20					
19-10-20					
20-10-20					

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अर्धीन यह मेरे द्वारा/ मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखी गयी सही प्रति है।
Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation of the People Act, 1951.

परिणाम
of the P

उम्मीदवारों के रख-रखाव के लिए रोकड़ रजिस्टर
Accounts by Contesting Candidates

52

परिशिष्ट-3 (1)
Annexure - 3 (I)
भाग-11
Part - II

उम्मीदवार का नाम, यदि कोई हो :
Name of Political Party, if any :

		शेष राशि Balance Amount	अध्युक्ति, यदि कोई हो Remarks if any
व्यय की प्रकृति Nature of Expenditure	राशि Amount	वह स्थान जहाँ पर या जिस व्यक्ति के पास शेष राशि रखी गई है (यदि नकद एक से अधिक स्थान/व्यक्ति के पास रखा गया है, तो नाम तथा शेष राशिका उल्लेख करें) Places at which or person with whom the balance is kept (if cash is kept at more than one place/ persons, mention name and balance available	यदि व्यय जो इस सारणी के स्तम्भ 7 में उल्लिखित है तथा भाग-1 के सारणी के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नहीं है, उसे यहाँ स्पष्ट किया जाना चाहिए। Any expense mentioned in column 7 of this table and not mentioned in column 2 of table of part- I should be clarified here
7	8	9	10
	<p>10,000 = ₹</p> <p>1000 = ₹</p> <p>300 = ₹</p> <p>500 = ₹</p> <hr/> <p>1000 = ₹</p> <p>12,800 = ₹</p>	<p>3,87,200 = ₹</p>	

परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
The People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result).

found correct

[Signature]
E U.

[Signature]
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन
Bank Register for Maintenance of Day to Day

अभ्यर्थी का नाम : जयदेव कुमार

Name of the Candidate :

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा था : 132 वा. वि. सं. 1

Constituency from which contested :

परिमाण घोषणा की तिथि : 10.11.20

Date of Declaration of Result :

निर्वाचन एजेंट का नाम एवं पता : जयदेव कुमार

Name and address of Election Agent :

बैंक का पता : आई डी सी आई बैंक (एम.सी.डी.)

Name of the Bank Branch Address :

खाता संख्या : 1067104 000 206051

Account No

(नामांकन की तिथि से परिमाण घोषणा की तिथि तक, दोनों तिथियाँ सहित)

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

जमा Deposit				
तिथि Date	व्यक्ति/दल/संस्था/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा पता जिनसे राशि प्राप्त की गई / बैंक में जमा की गयी Name and address of person/party association/body/any other from whom the amount received/ deposited in Bank	नकद/चेक सं०, बैंक का नाम तथा शाखा Cash/Cheque No., Bank name and Branch	राशि Amount	चेक सं० Cheque No.
1	2	3	4	5
17.10.20	स-प-य	आई डी सी आई बैंक (एम.सी.डी.)	100,000 = W	—
24.10.20	—	—	—	—
29.10.20	जयदेव कुमार	11	25000	—
28.11.20	—	—	—	—
28.10.20	—	—	—	—
22.10.20	जयदेव कुमार	जयदेव	25000	—
28.10.20	—	—	—	—
27.10.20	—	—	—	—


प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखी गयी
Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation

व्यय का विवरण Expenditure		राशि Amount	शेष Balance	टिप्पणी, यदि कोई हो Remarks if any
व्यय की प्रकृति Nature of Expenditure				
7	8	9	10	
			1,00,000/-	
			11,800	
BRBY	11,800		88,200	
			25,000	
			11,320	
			25,000	
			88,200	
			10,000	
			78,200 = W	
			25,000 = W	
			103,200 = W	
			36,000 = W	
			67,200 = W	
			50,000 = W	
			17,200 = W	

(अधिक के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।)
(Certificate to be furnished after the date of declaration of result)

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
Signature of the Candidate


E.O.


E.O.

ER